



Staff Selection Commission  
(Government Of India)

**QID : 1** - In the following question, select the related word from the given alternatives.

**Influenza : Virus :: Ringworm : ?**

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए।

**इंफ्लुएंजा : विषाणु :: दाद : ?**

**Options:**

- 1) Bacteria  
बैक्टीरिया
- 2) Fungi  
कवक
- 3) Parasite  
परजीवी
- 4) Protozoa  
प्रोटोजोआ

**Correct Answer:** Fungi  
कवक

**Candidate Answer:** Fungi  
कवक

**QID : 2** - In the following question, select the related word from the given alternatives.

**Fan : Blades :: ? : ?**

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए।

**पंखा : पंख :: ? : ?**

**Options:**

- 1) Bonnet : Car  
टोप : कार
- 2) Room : House  
कमरा : घर
- 3) Arc : Circle  
वृत्तखण्ड : वृत्त
- 4) Book : Chapter  
पुस्तक : अध्याय

**Correct Answer:** Book : Chapter  
पुस्तक : अध्याय

**Candidate Answer:** Room : House  
कमरा : घर

**QID : 3** - In the following question, select the related letters from the given alternatives.

**LSFW : NTHX :: PKWE : ?**

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए।

**LSFW : NTHX :: PKWE : ?**

**Options:**

- 1) RYLF
- 2) RLYE
- 3) RLYF
- 4) RLGf

**Correct Answer:** RLYF

**Candidate Answer:** RLYF

**QID : 4** - In the following question, select the related letters from the given alternatives.

**LMNO : NQTW :: GHIJ : ?**

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए।

**LMNO : NQTW :: GHIJ : ?**

**Options:**

1) ILOR

2) ILRO

3) ILMO

4) LRMO

**Correct Answer:** ILOR

**Candidate Answer:** ILOR

**QID : 5** - In the following question, select the related number from the given alternatives.

**11 : 120 :: 13 : ?**

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।

**11 : 120 :: 13 : ?**

**Options:**

1) 165

2) 168

3) 170

4) 169

**Correct Answer:** 168

**Candidate Answer:** 168

**QID : 6** - In the following question, select the related number from the given alternatives.

**103 : 10609 :: 106 : ?**

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए।

**103 : 10609 :: 106 : ?**

**Options:**

1) 10606

2) 10306

3) 11236

4) 13636

**Correct Answer:** 11236

**Candidate Answer:** 11236

**QID : 7** - In the following question, select the odd word from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए।

**Options:**

1) Newspaper

समाचार पत्र

2) Journal

दैनिक पत्रिका

3) Novel

उपन्यास

4) Magazine

पत्रिका

**Correct Answer:** Novel

उपन्यास

**Candidate Answer:** Novel

उपन्यास

**QID : 8** - In the following question, select the odd word from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए।

**Options:**

1) Definite

निश्चित

2) Specific

विशिष्ट

3) Doubtful

संदिग्ध

4) Distinct

सुस्पष्ट

**Correct Answer:** Doubtful

संदिग्ध

**Candidate Answer:** Doubtful  
संदिग्ध

**QID : 9** - In the following question, select the odd letters from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए।

**Options:**

1) BEHK

2) JMPS

3) PSVY

4) EHKM

**Correct Answer:** EHKM

**Candidate Answer:** EHKM

**QID : 10** - In the following question, select the odd letters from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए।

**Options:**

1) AD

2) PT

3) EH

4) JM

**Correct Answer:** PT

**Candidate Answer:** PT

**QID : 11** - In the following question, select the odd number pair from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए।

**Options:**

1) 12 - 48

2) 7 - 28

3) 5 - 20

4) 11 - 55

**Correct Answer:** 11 - 55

**Candidate Answer:** 11 - 55

**QID : 12** - In the following question, select the odd number pair from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए।

**Options:**

1) 12 - 28

2) 20 - 36

3) 42 - 58

4) 72 - 90

**Correct Answer:** 72 - 90

**Candidate Answer:** 42 - 58

**QID : 13** - Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary.

1. Ale

2. Align

3. Amend

4. Anatomy

5. Alpine

निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें।

1. Ale

2. Align

3. Amend

4. Anatomy

5. Alpine

**Options:**

1) 51342

2) 35412

3) 12354

4) 12534

**Correct Answer:** 12534

**Candidate Answer:** 12534

**QID : 14** - Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary.

1. Den
2. Dragon
3. Drop
4. Desk
5. Doom

निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें।

1. Den
2. Dragon
3. Drop
4. Desk
5. Doom

**Options:**

- 1) 54312
- 2) 14523
- 3) 31245
- 4) 13245

**Correct Answer:** 14523

**Candidate Answer:** 14523

**QID : 15** - A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series.

**A, B, D, G, ?**

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

**A, B, D, G, ?**

**Options:**

- 1) K
- 2) J
- 3) L
- 4) I

**Correct Answer:** K

**Candidate Answer:** K

**QID : 16** - A series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series.

**VWR, TUP, RSN, ?**

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

**VWR, TUP, RSN, ?**

**Options:**

- 1) PLQ
- 2) PQL
- 3) LPQ
- 4) PRM

**Correct Answer:** PQL

**Candidate Answer:** PQL

**QID : 17** - In the following question, select the missing number from the given series.

**3, 10, 31, 94, ?**

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए।

**3, 10, 31, 94, ?**

**Options:**

- 1) 197
- 2) 127



3) 283

4) 317

**Correct Answer:** 283

**Candidate Answer:** 283

**QID : 18** - In the following question, select the missing number from the given series.

**3, 4, 12, 48, 576, ?**

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए।

**3, 4, 12, 48, 576, ?**

**Options:**

1) 27648

2) 13824

3) 23040

4) 28166

**Correct Answer:** 27648

**Candidate Answer:** 27648

**QID : 19** - Sunita walks 45 metres towards south. Then turns right and walk another 45 metres. Then turn right and walks for 20 metres to reach point L. She then again turns to her right and walks for 45 metres. How far (in metres) is she from point L?

सुनीता दक्षिण की ओर 45 मीटर चलती है। फिर दायें मुड़ती है तथा और 45 मीटर चलती है। फिर दायें मुड़ती है तथा 20 मीटर चलकर बिन्दु L पर पहुँचती है। वह फिर से दायें मुड़ती है तथा 45 मीटर चलती है। वह बिन्दु L से कितनी दूरी (मीटर में) पर है?

**Options:**

1) 50

2) 45

3) 25

4) 60

**Correct Answer:** 45

**Candidate Answer:** 45

**QID : 20** - Priyank ranks 6<sup>th</sup> from the bottom and 28<sup>th</sup> from the top in a class. How many students are there in the class?

प्रियांक एक कक्षा में नीचे से 6 वें तथा ऊपर से 28 वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं?

**Options:**

1) 31

2) 32

3) 33

4) 34

**Correct Answer:** 33

**Candidate Answer:** 33

**QID : 21** - In a row of people Manu is 7<sup>th</sup> from bottom end of row. Shrey is 10 ranks above Manu. If Shrey is 8<sup>th</sup> from top, then how many people are there in this row?

लोगों की एक पंक्ति में, मनु नीचे के छोर से 7 वां है। श्रेय, मनु से 10 स्थान ऊपर है। यदि श्रेय ऊपर के छोर से 8 वां है, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं?

**Options:**

1) 25

2) 26

3) 24

4) 23

**Correct Answer:** 24

**Candidate Answer:** 24

**QID : 22** - In the following question, select the word which cannot be formed using the letters of the given word.

**Instructor**

निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।

**Instructor**

**Options:**

- 1) Rust
- 2) Tort
- 3) Stop
- 4) Stint

**Correct Answer:** Stop

**Candidate Answer:** Stop

**QID : 23** - In the following question, select the word which cannot be formed using the letters of the given word.

**Encourage**

निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।

**Encourage**

**Options:**

- 1) Courage
- 2) Court
- 3) Race
- 4) Encore

**Correct Answer:** Court

**Candidate Answer:** Court

**QID : 24** - In a certain code language, "SURGEON" is written as "QLHDURV" and "CORNER" is written as "OHKULF". How is "SHADOW" written in that code language?

एक विशिष्ट कोड भाषा में, "SURGEON" को "QLHDURV" लिखा जाता है तथा "CORNER" को "OHKULF" लिखा जाता है। इस कोड भाषा में "SHADOW" को किस प्रकार लिखा जाएगा?

**Options:**

- 1) DRTERS
- 2) TRADEV
- 3) UQBCFU
- 4) TFBCPX

**Correct Answer:** TRADEV

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 25** - In a certain code language, "SUN" is written as "54" and "PUT" is written as "57". How is "CAT" written in that code language?

एक विशिष्ट कोड भाषा में, "SUN" को "54" लिखा जाता है तथा "PUT" को "57" लिखा जाता है। इस कोड भाषा में "CAT" को किस प्रकार लिखा जाएगा?

**Options:**

- 1) 28
- 2) 24
- 3) 52
- 4) 36

**Correct Answer:** 24

**Candidate Answer:** 24

**QID : 26** - In the following question, by using which mathematical operators will the expression become correct?

14 ? 2 ? 4 ? 6 ? 4

निम्नलिखित प्रश्न में, दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा?

14 ? 2 ? 4 ? 6 ? 4

**Options:**

- 1)  $\times, \div, >$  and  $\times$   
 $\times, \div, >$  तथा  $\times$
- 2)  $\div, \times, >$  and  $\times$   
 $\div, \times, >$  तथा  $\times$
- 3)  $\div, +, =$  and  $\times$   
 $\div, +, =$  तथा  $\times$

4) ÷, +, > and ×

÷, +, > तथा ×

**Correct Answer:** ÷, ×, > and ×

÷, ×, > तथा ×

**Candidate Answer:** ÷, ×, > and ×

÷, ×, > तथा ×

**QID : 27** - In the following question, correct the equation by interchanging two signs.

$$43 + 9 - 6 \div 3 \times 8 = 50$$

निम्नलिखित प्रश्न में, किन्ही दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए।

$$43 + 9 - 6 \div 3 \times 8 = 50$$

**Options:**

1) ÷ and ×

÷ तथा ×

2) + and ÷

+ तथा ÷

3) - and +

- तथा +

4) - and ×

- तथा ×

**Correct Answer:** - and +

- तथा +

**Candidate Answer:** - and +

- तथा +

**QID : 28** - If  $4 * 9 \% 2 = 47$  and  $9 * 0 \% 6 = 84$ , then  $5 * 3 \% 7 = ?$

यदि  $4 * 9 \% 2 = 47$  तथा  $9 * 0 \% 6 = 84$  हो, तो  $5 * 3 \% 7 = ?$

**Options:**

1) 38

2) 51

3) 42

4) 46

**Correct Answer:** 46

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 29** - If  $1/4/3 = 254$  and  $3/6/8 = 479$ , then  $5/2/7 = ?$

यदि  $1/4/3 = 254$  तथा  $3/6/8 = 479$  हो, तो  $5/2/7 = ?$

**Options:**

1) 416

2) 461

3) 368

4) 638

**Correct Answer:** 638

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 30** -

In the following question, select the number which can be placed at the sign of question mark (?) from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए।

7	3	2
6	11	5
5	1	8
72	?	50

**Options:**

1) 38

2) 40

3) 42

4) 44

Correct Answer: 44  
Candidate Answer: 44

QID : 31 -

In the following question, select the number which can be placed at the sign of question mark (?) from the given alternatives.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह (?) के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए।

1	7	2
8	6	4
9	2	5
4	7	?

Options:

1) 9

2) 10

3) 11

4) 12


Correct Answer: 11

Candidate Answer: [ NOT ANSWERED ]

QID : 32 -

How many quadrilaterals are there in the given figure?

दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं?



Options:

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

Correct Answer: 2

Candidate Answer: 4

www.everexam.org  
M. 7827455078


Learn More, Earn More  
YouTube CHANNEL

EVEREXAM

QID : 33 -

How many triangles are there in the given figure?

दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?



Options:

1) 24

2) 26

3) 28

4) 30

Correct Answer: 26

Candidate Answer: [ NOT ANSWERED ]

QID : 34 - In each of the following question below are given some statements followed by some conclusions. Taking the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts, read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follows the given statements.

Statements:

- I. All women are hardworking.
- II. All intelligent are advocate.
- III. Some intelligent are women.

Conclusions:

- I. Some advocates are women.
- II. Some hardworking are women.
- III. Some women are advocate.
- IV. Some hardworking are intelligent.

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष, दिए गए कथनों के आधार पर युक्तिसंगत हैं।

कथन:

- I. सभी महिलाएँ मेहनती हैं।
- II. सभी बुद्धिमान वकील हैं।
- III. कुछ बुद्धिमान महिलाएँ हैं।

निष्कर्ष:

- I. कुछ वकील महिलाएँ हैं।
- II. कुछ मेहनती महिलाएँ हैं।
- III. कुछ महिलाएँ वकील हैं।
- IV. कुछ मेहनती बुद्धिमान हैं।

Options:

- 1) Only conclusion (II), (III) and (IV) follow केवल निष्कर्ष (II), (III) तथा निष्कर्ष (IV) सही हैं
- 2) Only conclusion (I), (II) and (III) follow केवल निष्कर्ष (I), (II) तथा निष्कर्ष (III) सही हैं
- 3) Only conclusion (I), (III) and (IV) follow केवल निष्कर्ष (I), (III) तथा निष्कर्ष (IV) सही हैं
- 4) All conclusions follow सभी निष्कर्ष सही हैं

Correct Answer: All conclusions follow सभी निष्कर्ष सही हैं

Candidate Answer: All conclusions follow सभी निष्कर्ष सही हैं

QID : 35 - In each of the following question below are given some statements followed by some conclusions. Taking the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts, read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically follows the given statements.

Statements:

- I. Some pins are cups.
- II. No cup is book.

Conclusions:



- I. Some pins are books.  
II. Some pins are not books.

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष, दिए गए कथनों के आधार पर युक्तिसंगत हैं।

**कथन:**

- I. कुछ पिन कप हैं।  
II. कोई कप पुस्तक नहीं है।

**निष्कर्ष:**

- I. कुछ पिन पुस्तकें हैं।  
II. कुछ पिन पुस्तकें नहीं हैं।

**Options:**

- 1) Only conclusion (I) follows  
केवल निष्कर्ष (I) सही है  
2) Only conclusion (II) follows  
केवल निष्कर्ष (II) सही है  
3) Both conclusion follow  
दोनों ही निष्कर्ष सही हैं  
4) Neither conclusion (I) nor conclusion (II) follows  
न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) सही है

**Correct Answer:** Only conclusion (II) follows  
केवल निष्कर्ष (II) सही है


**Candidate Answer:** Neither conclusion (I) nor conclusion (II) follows  
न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) सही है

**QID : 36 -**

Three positions of a cube are shown below. What will come opposite to face containing 'Q'?

नीचे एक घन की तीन अवस्थाएँ दर्शायी गयी हैं। 'Q'

युक्त फलक के विपरीत क्या आयेगा?



**Options:**

- 1) P  
2) R  
3) S  
4) Z

**Correct Answer:** S


**Candidate Answer:** S

**QID : 37 -**

Three position of a cube are shown below. What will come opposite to face containing 'R'?

नीचे एक घन की तीन अवस्थाएँ दर्शायी गयी हैं। 'R' युक्त

फलक के विपरीत क्या आयेगा?



**Options:**

- 1) Y  
2) G  
3) W



4) C


Correct Answer: C

Candidate Answer: C

QID : 38 -

In the given figure, which letter represents carnivorous plants which are not green?

दी गई आकृति में, कौन सा अक्षर ऐसे माँसाहारी पौधे जो हरे नहीं हैं, को दर्शाता है?



Options:

1) d

2) g

3) e

4) f


Correct Answer: d

Candidate Answer: d

QID : 39 -

In the given figure, how many yellow birds are there?

दी गई आकृति में, कितने पीले पक्षी हैं?



Options:

1) 25

2) 32

3) 18

4) 20

Correct Answer: 32

Candidate Answer: 32


YouTube CHANNEL

EVEREXAM

QID : 40 -

In the given figure, how many water are either tap or shower?

दी गई आकृति में, कितना जल या तो नल है या फुहारा है?



Options:

- 1) 168
- 2) 111
- 3) 125
- 4) 108


Correct Answer: 111

Candidate Answer: 111

QID : 41 -

Which answer figure will complete the pattern in the question figure?

कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी?



Options:

1)



2)



3)



4)



Correct Answer:



Candidate Answer:




www.everexam.org

QID : 42 -

Which answer figure will complete the pattern in the question figure?

Mobile: 7827455078

कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी?



Options:

1)



2)



3)



4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



YouTube CHANNEL

EVEREXAM

QID : 43 -


From the given answer figures, select the one in which the question figure is hidden/embedded.

दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिस में प्रश्न आकृति निहित है।




Options:


1)




2)




3)




4)



Correct Answer:




Candidate Answer:



QID : 44 -

From the given answer figures, select the one in which the question figure is hidden/embedded.

दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिस में प्रश्न आकृति निहित है।




Options:


1)




2)




3)




4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



QID : 45 -

A piece of paper is folded and punched as shown below in the question figures. From the given answer figures, indicate how it will appear when opened?

नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा?



Options:


1)




2)



3)




4)



Correct Answer:




Candidate Answer:



QID : 46 -

A piece of paper is folded and punched as shown below in the question figures. From the given answer figures, indicate how it will appear when opened?

नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा?



Options:

1)



2)




3)



4)



www.everexam.org  
Mob.: 7827455078



YouTube CHANNEL


EVEREXAM



Correct Answer:



Candidate Answer:




www.everexam.org

QID : 47 -


If a mirror is placed on the line AB, then which of the answer figures is the right image of the given figure?

यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिम्ब होगी?




Options:


1)




2)




3)




4)



Correct Answer:



Candidate Answer:




YouTube CHANNEL

EVEREXAM

QID : 48 -


If a mirror is placed on the line AB, then which of the answer figures is the right image of the given figure?

यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिम्ब होगी?




Options:


1)




2)




3)




4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



YouTube CHANNEL

EVEREXAM

QID : 49 -

A word is represented by only one set of numbers as given in any one of the alternatives. The sets of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as shown in the given two matrices. The columns and rows of **Matrix-I** are numbered from 0 to 4 and that of **Matrix-II** are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column, for example, 'I' can be represented by 12, 44, etc., and 'D' can be represented by 75, 97, etc. Similarly, you have to identify the set for the word "CHEAT".

एक शब्द केवल एक संख्या-समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या-समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि दिए गए दो आव्यूहों में है। आव्यूह-I के स्तम्भ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है और आव्यूह-II की 5 से 9। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तम्भ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 'I' को 12, 44, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा 'D' को 75, 97, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए शब्द "CHEAT" के लिए समूह को पहचानना है।

	0	1	2	3	4
0	H	I	G	C	N
1	C	N	I	G	H
2	I	H	C	N	G
3	N	G	H	I	C
4	G	C	N	H	I

	5	6	7	8	9
5	T	D	S	A	E
6	S	A	T	E	D
7	D	E	A	S	T
8	A	T	E	D	S
9	E	S	D	T	A

Options:

- 1) 10, 21, 68, 77, 56
- 2) 34, 43, 95, 85, 96
- 3) 41, 14, 76, 99, 79
- 4) 22, 00, 87, 67, 67

Correct Answer: 41, 14, 76, 99, 79

Candidate Answer: 41, 14, 76, 99, 79

YouTube CHANNEL

EVEREXAM

**QID : 50 -**

A word is represented by only one set of numbers as given in any one of the alternatives. The sets of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as shown in the given two matrices. The columns and rows of **Matrix-I** are numbered from 0 to 4 and that of **Matrix-II** are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column, for example, 'Q' can be represented by 12, 43, etc., and 'M' can be represented by 67, 99, etc. Similarly, you have to identify the set for the word "PRICE".

एक शब्द केवल एक संख्या-समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या-समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि दिए गए दो आव्यूहों में है। आव्यूह-I के स्तम्भ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है और आव्यूह-II की 5 से 9। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तम्भ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 'Q' को 12, 43, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा 'M' को 67, 99, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए शब्द "PRICE" के लिए समूह को पहचानना है।

Matrix-I आव्यूह-I					Matrix-II आव्यूह-II						
	0	1	2	3	4		5	6	7	8	9
0	Q	T	S	R	P	5	I	M	E	C	D
1	R	P	Q	S	T	6	E	C	M	D	I
2	S	Q	T	P	R	7	C	D	I	M	E
3	P	S	R	T	Q	8	M	E	D	I	C
4	T	R	P	Q	S	9	D	I	C	E	M

**Options:**

- 1) 23, 03, 55, 66, 99
- 2) 42, 24, 88, 56, 65
- 3) 11, 10, 96, 97, 85
- 4) 04, 41, 69, 75, 57

**Correct Answer:** 04, 41, 69, 75, 57

**Candidate Answer:** 04, 41, 69, 75, 57

**QID : 51 -** What is the full form of FDI?

एफडीआई का असंक्षिप्त रूप क्या है?

**Options:**

- 1) Foreign Direct Input  
प्रत्यक्ष विदेशी इनपुट
- 2) Foreign Direct Investment  
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
- 3) Fiscal Direct Investment  
प्रत्यक्ष वित्तीय निवेश
- 4) Fiscal Direct Input  
प्रत्यक्ष वित्तीय इनपुट

**Correct Answer:** Foreign Direct Investment  
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 52 -** In which situation, wages and prices chase each other at a very quick speed?

किस स्थिति में, वेतन तथा मूल्य एक दूसरे की ओर तीव्र गति से अनुसरण करते हैं?

**Options:**

- 1) Disinflation  
अवस्फीति
- 2) Reflation  
प्रत्यवस्फीति
- 3) Stagflation  
मुद्रास्फीतिजनित मंदी
- 4) Hyper-inflation  
अति मुद्रास्फीति

**Correct Answer:** Hyper-inflation  
अति मुद्रास्फीति

**Candidate Answer:** Hyper-inflation  
अति मुद्रास्फीति



**QID : 53** - Banking comes under which of the following sector?

बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है?

**Options:**

- 1) Primary sector  
प्राथमिक क्षेत्र
- 2) Secondary sector  
द्वितीय क्षेत्र
- 3) Tertiary sector  
तृतीय क्षेत्र
- 4) Both Secondary and Tertiary sectors  
द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र दोनों

**Correct Answer:** Tertiary sector  
तृतीय क्षेत्र

**Candidate Answer:** Primary sector  
प्राथमिक क्षेत्र

**QID : 54** - Which of the following is a basic characteristic of 'Oligopoly'?

निम्नलिखित में से कौन सी 'अत्याधिकार' की एक सामान्य विशेषता है?

**Options:**

- 1) Many sellers, many buyers  
अधिक विक्रेता, अधिक क्रेता
- 2) Few sellers, few buyers  
अल्प विक्रेता, अल्प क्रेता
- 3) Few sellers, many buyers  
अल्प विक्रेता, अधिक क्रेता
- 4) Many sellers, few buyers  
अधिक विक्रेता, अल्प क्रेता

**Correct Answer:** Few sellers, many buyers  
अल्प विक्रेता, अधिक क्रेता

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 55** - What was the main objective of the 5<sup>th</sup> Five Year Plan?

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था?

**Options:**

- 1) Removal of poverty and achievement of self-reliance  
गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता कि प्राप्ति
- 2) Faster, more inclusive and sustainable growth  
तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास
- 3) Inclusive growth  
समावेशी विकास
- 4) None of these  
इनमें से कोई नहीं

**Correct Answer:** Removal of poverty and achievement of self-reliance  
गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता कि प्राप्ति

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 56** - \_\_\_\_\_ is a form of government in which the rulers are elected by the people.

\_\_\_\_\_ शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है।

**Options:**

- 1) Autocratic  
निरंकुश
- 2) Monarchic  
राजतंत्रवादी
- 3) Democratic  
लोकतांत्रिक
- 4) Authoritarian  
अधिकारवादी

**Correct Answer:** Democratic  
लोकतांत्रिक

**Candidate Answer:** Democratic  
लोकतांत्रिक

**QID : 57** - Who said 'The God, who gave us life, gave us the liberty at the same time'?

'भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है', किसने कहा था?

**Options:**

- 1) Marx  
मार्क्स
- 2) Plato  
प्लेटो
- 3) Jefferson  
जेफरसन
- 4) Locke  
लॉक

**Correct Answer:** Jefferson

जेफरसन

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 58** - What is 'Patriarchic Society'?

'पितृ प्रधान समाज' से क्या अभिप्राय है?

**Options:**

- 1) System that values women more than men  
ऐसी व्यवस्था जिसमें महिलाओं को पुरुषों से अधिक महत्व दिया जाता है
- 2) System that values men more than women  
ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है
- 3) System that values both men and women equally  
ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को समान महत्व दिया जाता है
- 4) System that values elders  
ऐसी व्यवस्था जिसमें बुजुर्गों को अधिक महत्व दिया जाता है

**Correct Answer:** System that values men more than women  
ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है

**Candidate Answer:** System that values men more than women  
ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है

**QID : 59** - Members of Rajya Sabha are elected for how many years?

राज्य सभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किये जाते हैं?

**Options:**

- 1) Two years  
दो वर्ष
- 2) Three years  
तीन वर्ष
- 3) Five years  
पाँच वर्ष
- 4) Six years  
छह वर्ष

**Correct Answer:** Six years

छह वर्ष

**Candidate Answer:** Six years

छह वर्ष

**QID : 60** - Under which pardoning power of the President, duration of sentence is reduced without changing its character?

निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत, दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है?

**Options:**

- 1) Commutation  
लघुकरण
- 2) Remission  
परिहार
- 3) Respite  
स्थगितकरण
- 4) Reprieve  
प्रविलंबन

**Correct Answer:** Remission

परिहार

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 61** - In Pocket Veto, the President of India can keep a bill for how much duration?

पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं?

**Options:**

- 1) 1 month  
एक माह
- 2) 6 months  
छह माह
- 3) 12 months  
बारह माह
- 4) Indefinite period  
अनिश्चित काल के लिए

**Correct Answer:** Indefinite period

अनिश्चित काल के लिए

**Candidate Answer:** Indefinite period

अनिश्चित काल के लिए

**QID : 62** - The President's seat can be left vacant for how much duration?

राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है?



**Options:**

- 1) 6 Months  
6 माह
- 2) 3 Months  
3 माह
- 3) 9 Months  
9 माह
- 4) 12 Months  
12 माह

**Correct Answer:** 6 Months  
6 माह

**Candidate Answer:** 6 Months  
6 माह

**QID : 63** - Which constitutional Amendment Act of India reduced voting age from 21 years to 18 years?

भारत के किस संविधानिक संशोधन अधिनियम में मतदान करने की आयु घटा कर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी?

**Options:**

- 1) 42<sup>nd</sup> Amendment Act  
42वाँ संशोधन अधिनियम
- 2) 61<sup>st</sup> Amendment Act  
61वाँ संशोधन अधिनियम
- 3) 74<sup>th</sup> Amendment Act  
74 वाँ संशोधन अधिनियम
- 4) 83<sup>rd</sup> Amendment Act  
83वाँ संशोधन अधिनियम

**Correct Answer:** 61<sup>st</sup> Amendment Act  
61वाँ संशोधन अधिनियम

**Candidate Answer:** 61<sup>st</sup> Amendment Act  
61वाँ संशोधन अधिनियम

**QID : 64** - In which year East India Company was ceased to work and India was completely undertaken by British Govt.?

किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटीश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था?

**Options:**

- 1) 1838
- 2) 1919
- 3) 1858
- 4) 1898

**Correct Answer:** 1858

**Candidate Answer:** 1858

**QID : 65** - At which location, a sculptor of chariot of Harappan time was found?

किस स्थान पर, हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी?

**Options:**

- 1) Lothal  
लोथल
- 2) Banawali  
बनावली
- 3) Daimabad  
दैमाबाद
- 4) Kalibangan  
कालीबंगा

**Correct Answer:** Daimabad  
दैमाबाद

**Candidate Answer:** Kalibangan  
कालीबंगा

**QID : 66** - First Satyagrah started from Champaran for opposing the cultivation of \_\_\_\_\_.

चम्पारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह \_\_\_\_\_ की खेती के विरुद्ध किया गया था।

**Options:**

- 1) Cotton  
कपास
- 2) Indigo  
नील
- 3) Silk  
रेशम
- 4) Kesar  
केसर

**Correct Answer:** Indigo  
नील

**Candidate Answer:** Indigo  
नील

**QID : 67** - Who was the founder of 'Vikramshila University'?

'विक्रमशिला विश्वविद्यालय' का संस्थापक कौन था?

**Options:**

- 1) Vijay Sen  
विजय सेन
- 2) Atisa  
अतिसा
- 3) Dharampal  
धर्मपाल
- 4) Ballal Sen  
बल्लाल सेन

**Correct Answer:** Dharampal  
धर्मपाल

**Candidate Answer:** Vijay Sen  
विजय सेन

**QID : 68** - When India got Independence, who was the Prime Minister of England?

जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री कौन थे?

**Options:**

- 1) William Bentic  
विलियम बेन्टिक
- 2) Warren Hasting  
वारेन हेस्टिंग्स
- 3) Margaret Thatcher  
मार्गरेट थैचर
- 4) Climent Atlee  
क्लिमेण्ट एटली

**Correct Answer:** Climent Atlee  
क्लिमेण्ट एटली

**Candidate Answer:** Margaret Thatcher  
मार्गरेट थैचर

**QID : 69** -

Match the following.

निम्नलिखित का मिलान कीजिए।

Mountain / पर्वत	Continent / महादीप
1. Mount Etna एटना पर्वत	a. Asia एशिया
2. Mount K2 के2 पर्वत	b. Africa अफ्रीका
3. Mount Kilimanjaro किलिमंजारो पर्वत	c. Europe यूरोप

**Options:**

- 1) 1 - a, 2 - b, 3 - c
- 2) 1 - b, 2 - a, 3 - c
- 3) 1 - c, 2 - a, 3 - b
- 4) 1 - a, 2 - c, 3 - b

**Correct Answer:** 1 - c, 2 - a, 3 - b

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 70** - Which of the following mountain range separates Europe and Asia?

निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है?

**Options:**

- 1) Rocky Mountain Range  
रोकी पर्वत श्रृंखला
- 2) Himalayan Mountain Range  
हिमालय पर्वत श्रृंखला
- 3) Ural Mountain Range  
यूराल पर्वत श्रृंखला
- 4) Appalachian Mountain Range  
एपलेशियन पर्वत श्रृंखला

**Correct Answer:** Ural Mountain Range

यूराल पर्वत श्रृंखला

**Candidate Answer:** Appalachian Mountain Range

एपलेशियन पर्वत श्रृंखला

**QID : 71** - Suez Canal connects which of the following water bodies?

स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है?

**Options:**

1) Mediterranean Sea and Black Sea

भूमध्य सागर तथा काला सागर

2) Mediterranean Sea and Red Sea

भूमध्य सागर तथा लाल सागर

3) Pacific Ocean and Atlantic Ocean

प्रशांत महासागर तथा अन्ध महासागर

4) Mediterranean Sea and Arctic Ocean

भूमध्य सागर तथा उत्तर ध्रुवीय महासागर

**Correct Answer:** Mediterranean Sea and Red Sea

भूमध्य सागर तथा लाल सागर

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 72** - Which of the following Indian state does not share International land border?

निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतराष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है?

**Options:**

1) Jammu and Kashmir

जम्मू तथा कश्मीर

2) Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश

3) Bihar

बिहार

4) Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश

**Correct Answer:** Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश

**Candidate Answer:** Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश

**QID : 73** - In which of the following city, world's second longest beach is located?

निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लम्बा समुद्रीय तट स्थित है?

**Options:**

1) Mumbai

मुम्बई

2) Kolkata

कोलकाता

3) Puducherry

पुडुचेरी

4) Chennai

चेन्नई

**Correct Answer:** Chennai

चेन्नई

**Candidate Answer:** Chennai

चेन्नई

**QID : 74** - Which of the following brings back deoxygenated blood from different parts of human body to heart?

निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है?

**Options:**

1) Veins

नसें

2) Arteries

धमनियाँ

3) Nerves

तंत्रिकाएँ

4) Lungs

फेफड़े

**Correct Answer:** Veins

नसें

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 75** - Which of the following is a warm blooded animal?

निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है?

**Options:**

1) Turtle

- कछुआ  
2) Snake  
साँप  
3) Ape  
बंदर  
4) Lizard  
छिपकली

**Correct Answer:** Ape  
बंदर

**Candidate Answer:** Ape  
बंदर

**QID : 76** - Where is bile stored?

पित्त कहाँ संग्रहित होता है?

**Options:**

- 1) Liver  
यकृत  
2) Kidney  
गुर्दा  
3) Gall bladder  
पित्ताशय  
4) Spleen  
तिल्ली

**Correct Answer:** Gall bladder  
पित्ताशय

**Candidate Answer:** Gall bladder  
पित्ताशय

**QID : 77** - Which of the following is not a connective tissue?

निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है?

**Options:**

- 1) Adipose Tissue  
वसामय ऊतक  
2) Compact Bone  
संहत अस्थि  
3) Cardiac Muscle  
हृदय मांसपेशी  
4) Areolar Tissue  
एरिओलर ऊतक

**Correct Answer:** Cardiac Muscle  
हृदय मांसपेशी

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 78** - Normally how many times the human heart beats in a minute?

एक मिनट में मनुष्य का हृदय समान्यतः कितनी बार धड़कता है?

**Options:**

- 1) 82  
2) 75  
3) 72  
4) 85

**Correct Answer:** 72

**Candidate Answer:** 72

**QID : 79** - Muscle fatigue occurs due to accumulation of \_\_\_\_\_.

मांसपेशियों में थकान \_\_\_\_\_ के इकट्ठा होने से होती है।

**Options:**

- 1) ATP  
ए.टी.पी  
2) ADP  
ए.डी.पी  
3) Lactic Acid  
लैक्टिक अम्ल  
4) Carbonic Acid  
कार्बोनिक अम्ल

**Correct Answer:** Lactic Acid  
लैक्टिक अम्ल

**Candidate Answer:** ATP  
ए.टी.पी

**QID : 80** - The inexhaustible source of energy of stars is due to \_\_\_\_\_.

सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण \_\_\_\_\_ है।

**Options:**

- 1) Conversion of hydrogen to helium  
हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन
- 2) Conversion of helium to hydrogen  
हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन
- 3) Decay of radioactive elements  
रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय
- 4) Excess of oxygen  
अतिरिक्त ऑक्सीजन

**Correct Answer:** Conversion of hydrogen to helium  
हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन

**Candidate Answer:** Conversion of hydrogen to helium  
हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन

**QID : 81** - Which of the following waves has the highest frequency?

निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है?

**Options:**

- 1) Radio  
रेडियो
- 2) Infrared  
अवरक्त
- 3) Microwaves  
सूक्ष्म तरंगें
- 4) Gamma-rays  
गामा किरण

**Correct Answer:** Gamma-rays  
गामा किरण

**Candidate Answer:** Gamma-rays  
गामा किरण

**QID : 82** - Why the clear nights are cooler than the cloudy nights?

साफ रातें, बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है?

**Options:**

- 1) Conductance  
प्रवाहकत्व
- 2) Condensation  
संक्षेपण
- 3) Radiation  
विकिरण
- 4) Insulation  
तापरोधन

**Correct Answer:** Radiation  
विकिरण

**Candidate Answer:** Conductance  
प्रवाहकत्व

**QID : 83** - The subatomic particle that does not have any electric charge is a/an \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है।

**Options:**

- 1) Electron  
इलेक्ट्रॉन
- 2) Proton  
प्रोटॉन
- 3) Neutron  
न्यूट्रॉन
- 4) All options are correct.  
सभी विकल्प सही हैं।

**Correct Answer:** Neutron  
न्यूट्रॉन

**Candidate Answer:** Neutron  
न्यूट्रॉन

**QID : 84** - Dot-Matrix is an example of which of the following?

डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?

**Options:**

- 1) A software  
एक सॉफ्टवेयर
- 2) Scanner  
स्केनर
- 3) Printer



प्रिंटर

4) Keyboard

कीबोर्ड

**Correct Answer:** Printer

प्रिंटर

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 85** - Which of the following pair is INCORRECT?

निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है?

**Options:**

1) 10 MB – 10240 KB

10 एमबी – 10240 केबी

2) 1 GB – 10240 MB

1 जीबी – 10240 एमबी

3) 1 TB – 1024 GB

1 टीबी – 1024 जीबी

4) 1 KB – 1024 Bytes

1 केबी – 1024 बाइट

**Correct Answer:** 1 GB – 10240 MB

1 जीबी – 10240 एमबी

**Candidate Answer:** 10 MB – 10240 KB

10 एमबी – 10240 केबी

**QID : 86** - Which of the following gas is used in bulb?

निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है?

**Options:**

1) Hydrogen

हाइड्रोजन

2) Carbon-dioxide

कार्बन डाईऑक्साइड

3) Carbon-mono-oxide

कार्बन मोनो ऑक्साइड

4) Argon

आर्गन

**Correct Answer:** Argon

आर्गन

**Candidate Answer:** Argon

आर्गन

**QID : 87** - Chlorine gas is a major component of which of the following?

क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किस का मुख्य घटक है?

**Options:**

1) Water

जल

2) Tear gas

अश्रु गैस

3) Liquefied Petroleum Gas

द्रवित पेट्रोलियम गैस

4) Gobar gas

गोबर गैस

**Correct Answer:** Tear gas

अश्रु गैस

**Candidate Answer:** Tear gas

अश्रु गैस

**QID : 88** - What is Brine solution?

ब्राइन घोल क्या है?

**Options:**

1) Excess salt + water

अधिक नमक + पानी

2) Silver

चांदी

3) Excess Ethanol + water

अधिक इथेनॉल + पानी

4) Excess starch + water

अधिक स्टार्च + पानी

**Correct Answer:** Excess salt + water

अधिक नमक + पानी

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 89** - pH scale ranges from \_\_\_\_ .

पी.एच. स्केल की सीमा \_\_\_\_ होती है।



**Options:**

1) 1 to 14

1 से 14

2) 1 to 7

1 से 7

3) 0 to 14

0 से 14

4) 0 to 7

0 से 7

**Correct Answer:** 0 to 14

0 से 14

**Candidate Answer:** 0 to 14

0 से 14

**QID : 90** - Which of the following primarily causes lead pollution?

निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सीसा प्रदूषण का मुख्य कारण है?

**Options:**

1) CFL Lamp

सी एफ एल लैंप

2) Automobile Battery

ऑटोमोबाइल बैट्री

3) Polymer

बहुलक

4) Diesel Engine

डीजल इंजन

**Correct Answer:** Automobile Battery

ऑटोमोबाइल बैट्री

**Candidate Answer:** Automobile Battery

ऑटोमोबाइल बैट्री

**QID : 91** - What was the main aim of Montreal Protocol?

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था?

**Options:**

1) Protection of Ozone layer

ओजोन परत का संरक्षण

2) Bio-diversity Conservation

जैव विविधता का संरक्षण

3) Global Warming

ग्लोबल वॉर्मिंग

4) Climate Change

जलवायु परिवर्तन

**Correct Answer:** Protection of Ozone layer

ओजोन परत का संरक्षण

**Candidate Answer:** Climate Change

जलवायु परिवर्तन

**QID : 92** - Supersonic jets cause thinning of which layer?

सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं?

**Options:**

1) O<sub>2</sub> layer

O<sub>2</sub> परत

2) O<sub>3</sub> layer

O<sub>3</sub> परत

3) CO<sub>2</sub> layer

CO<sub>2</sub> परत

4) SO<sub>2</sub> layer

SO<sub>2</sub> परत

**Correct Answer:** O<sub>3</sub> layer

O<sub>3</sub> परत

**Candidate Answer:** O<sub>3</sub> layer

O<sub>3</sub> परत

**QID : 93** - What is the name of the app launched by the Union Ministry of Power to provide real time information sharing on power supply?

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत आपूर्ति की वास्तविक काल में सूचना साझा करने के लिए शुरू की गई एप का नाम क्या है?

**Options:**

1) URJAMITRA

ऊर्जामित्रा

2) BHIM

भीम

3) URJA

ऊर्जा

4) UMANG

उमंग

**Correct Answer:** URJAMITRA

ऊर्जामित्रा

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 94** - Who discovered 'Portland cement'?

'पोर्टलैण्ड सीमेंट' का आविष्कार किसने किया था?

**Options:**

1) Michael Faraday

माइकल फैराडे

2) Guglielmo Marconi

गुल्येल्लो मार्कोनी

3) Joseph Aspdin

जोसेफ एस्पडिन

4) Isaac Newton

आइज़क न्यूटन

**Correct Answer:** Joseph Aspdin

जोसेफ एस्पडिन

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 95** - Nitin Thimmaiah is related to which sport?

नितिन थिमैया किस खेल से संबंधित है?

**Options:**

1) Table Tennis

टेबल टेनिस

2) Boxing

मुक्केबाजी

3) Cricket

क्रिकेट

4) Hockey

हॉकी

**Correct Answer:** Hockey

हॉकी

**Candidate Answer:** Hockey

हॉकी

**QID : 96** -

Match the following.

निम्नलिखित का मिलान कीजिए।

**Temple / मंदिर**

1. Dilwara Temple

दिलवाड़ा मंदिर

2. Golden Temple

स्वर्ण मंदिर

3. Lotus Temple

कमल मंदिर

4. Sun Temple

सूर्य मंदिर

**Religion / धर्म**

a. Bahai

बहाई

b. Hinduism

हिंदू धर्म

c. Sikhism

सिक्ख धर्म

d. Jainism

जैन धर्म

**Options:**

1) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

2) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

3) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

4) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c

**Correct Answer:** 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

**Candidate Answer:** 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

**QID : 97** - Which Chief Minister has been awarded with the 'Transformative Chief Minister Award' on May 8, 2017?

8 मई, 2017 को किस मुख्य मंत्री को 'ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड' से सम्मानित किया गया है?

**Options:**

- 1) Yogi Adityanath, Uttar Pradesh  
योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश
- 2) Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh  
चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश
- 3) Arvind Kejriwal, Delhi  
अरविंद केजरीवाल, दिल्ली
- 4) Vasundhara Raje Scindia, Rajasthan  
वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान

**Correct Answer:** Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh  
चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश

**Candidate Answer:** Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh  
चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश

**QID : 98** - Who wrote the book named 'Exile'?

'एग्जाइल' नामक पुस्तक किसने लिखी है?

**Options:**

- 1) Barkha Dutt  
बरखा दत्त
- 2) Valmik Thapar  
वाल्मीक थापर
- 3) Tasleema Nasreen  
तसलीमा नसरीन
- 4) Ranbir Singh Sindhu  
रणबीर सिंह सिंधु

**Correct Answer:** Tasleema Nasreen  
तसलीमा नसरीन

**Candidate Answer:** [ NOT ANSWERED ]

**QID : 99** - Pakistan has leased Gwadar port to state-run firm of which country for 40 years?

पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह को किस देश की राज्य द्वारा संचालित संस्थान को 40 वर्षों के लिए पट्टे (लीज) पर दिया है?

**Options:**

- 1) Iran  
ईरान
- 2) China  
चीन
- 3) Afghanistan  
अफ़गानिस्तान
- 4) India  
भारत

**Correct Answer:** China  
चीन

**Candidate Answer:** China  
चीन

**QID : 100** - Which neighbouring country of India is not among the founding members of SAARC?

भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है??

**Options:**

- 1) Nepal  
नेपाल
- 2) Bangladesh  
बंगलादेश
- 3) Afghanistan  
अफ़गानिस्तान
- 4) Bhutan  
भूटान

**Correct Answer:** Afghanistan  
अफ़गानिस्तान

**Candidate Answer:** Afghanistan  
अफ़गानिस्तान

YouTube CHANNEL

EVEREXAM